

**\*@shahjahanpurpol\***

**\*प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य जनपद शाहजहाँपुर दिनांक 12.09.2021\***

**\*थाना कटरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,\***

**\*अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे 60 लाख रुपये कीमत की 150 ग्राम स्मैक व 01 मो0सा0 सहित मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार ।\***

श्री एस.आनन्द, पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में मादक पदार्थों की रोकथाम व मादक पदार्थ तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, श्री संजीव कुमार बाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व श्री परमानन्द पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन मे थाना तिलहर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी ।

दिनांक 12.09.21 को श्री प्रवीण कुमार सोलंकी, प्रभारी निरीक्षक थाना कटरा के नेतृत्व मे थाना कटरा की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर खैरपुर चौराहे से जैतीपुर रोड़ पर पर समय करीब रात्रि 03.10 बजे अभियुक्त गिरीश पाल पुत्र छेदालाल निवासी टांडा सिकन्दरपुर वर्तमान पता नि0ग्रा0 बेहरा थाना फरीदपुर जनपद बरेली को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 150 ग्राम स्मैक व 01 मो0सा0 एच0एफ0 डीलक्स रंग काला नीला नं0 UP 27 BA 2645 बरामद हुई । इस सम्बन्ध में थाना कटरा पर मु0अ0स0 476/2021 धारा 8/22 NDPS.ACT बनाम गिरीश पाल उपरोक्त पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय पेशी हेतु खाना किया जायेगा । अभियुक्त से पूछताछ से जो तथ्य प्रकाश मे आयेंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

**\*गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण:-\***

**1- गिरीश पाल पुत्र छेदालाल निवासी टांडा सिकन्दरपुर हाल पता नि0ग्रा0 बेहरा थाना फरीदपुर जनपद बरेली**

**\*बरामदगी का विवरण:-\***

1. 150 ग्राम स्मैक (अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 60 लाख रुपये )
2. 01 मोटर साइकिल एच0एफ0 डीलक्स रजि0नं0 UP 27 BA 2645

**\*पंजीकृत अभियोग:-\***

मु0अ0स0 476/2021 धारा 8/22 NDPS.ACT थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर

**\*विवरण पूछताछ:-\***

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मैं बाबू पुत्र अब्दुल रहमान नि0ग्रा0 बेहरा थाना फरीदपुर जनपद बरेली से सस्ते दामो पर स्मैक लेकर आगे अधिक मूल्य पर सप्लाई करता हूँ । जिससे मुझे काफी बचत हो जाती है । आज मैं ग्राहक की तालाश कर रहा था कि आपके द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया ।

**\*गिरफ्तारी करने वाली टीम:-\***

1. प्रवीण सोलंकी प्रभारी निरीक्षक कटरा जनपद शाह0
2. व0उ0नि0 संतोष कुमार सिंह थाना कटरा जनपद शाह0
3. हे0का0 400 अजय राना थाना कटरा जनपद शाह0
4. हे0का0 29 जितेन्द्र कुमार थाना कटरा जनपद शाह0
5. हे0का0 79 तैयव अली थाना कटरा जनपद शाह0
6. हे0का0 56 प्रमोद कुमार थाना कटरा जनपद शाह0
7. का0 1802 नवीन कुमार थाना कटरा जनपद शाह0